



TEST REQUISITION FORM

Patient Details

First Name : Ms. NOOR Last Name : JHA

Age : 26y 1f Gender : Male Female

Address : _____

Contact No. : 98527580122

E-mail ID : _____

Referred by Dr. RASHMI Contact No. : _____

For Maternal Screening - Date of Birth :- 09 09 1991

Weight : 60 kg. Height 4.11 ft inches, LMP 2/10/17 Last Ultrasound Report

Billing Information

Client Name : Civil Hospital (P)

Client ID : _____

Total Amount : 9761-

Amount Received : 9761- Receipt No. : _____

Amount Balance / Due : _____

Payment via : CASH CHEQUE CREDIT

Specimen Type Received (For MolQ use only)

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Serum | <input type="checkbox"/> Bone Marrow | <input type="checkbox"/> CSF |
| <input type="checkbox"/> Plasma: EDTA/FL/CIT | <input type="checkbox"/> FN Aspirate | <input type="checkbox"/> Fluid |
| <input type="checkbox"/> SST | <input type="checkbox"/> Tissue Formalin | <input type="checkbox"/> BAL |
| <input type="checkbox"/> W. Blood EDTA | <input type="checkbox"/> Paraffin Block | <input type="checkbox"/> Sputum |
| <input type="checkbox"/> W. Blood Fluoride | <input type="checkbox"/> Smear | <input type="checkbox"/> Urine |
| <input type="checkbox"/> W. Blood Heparin | <input type="checkbox"/> Slide (H&E) | <input type="checkbox"/> Stool |
| <input type="checkbox"/> W. Blood Sodium Citrate | <input type="checkbox"/> Pus | <input type="checkbox"/> Swab |
| | <input type="checkbox"/> Blood Culture Bottle | <input type="checkbox"/> Others |

Other Sample Type / Source : 1

Received Specimen Information (For MolQ use only)

Temperature : Ambient Refrigerated Frozen

Date : _____ Time : _____

Patient ID _____ No. of vials/container _____

1	2
---	---

Signature of Accessioning Officer(s)

Test Name/Test Code

(Please refer to the Directory of Services for correct name and specimen type)


TFT
Biople marker

Instructions to Laboratory/Clinical Information

(P.T.O)

Sent Specimen Information

Temperature : Ambient Refrigerated Frozen

Sample / Vial Type	Vial ID Barcode
P	

Total No. of Vials/Container _____

Specimen Collection Information

Date : 06/01/18 Time : _____

Fasting : Yes No Fasting Period : _____ Hrs.

Collection by : Rahul

Urine Volume : _____ ml Hrs. _____

Patient Consent : I hereby authorize MoLQ Laboratory to use and share with affiliates my personal information including but not limited to any condition / disease information etc. as may be necessary to perform the test or services etc. Medical records/information, to the extent of the applicable by laws and regulations, will be kept confidential and will not be made publicly available. Further, I authorize the use of the leftover specimens for immediate research and in future research of any kind and at any time in the future. The samples will be coded to maintain confidentiality and will be discarded as per the rules and regulations specified as applicable by law. In the event of any publication by MoLQ Laboratory, patient's identity will remain confidential. I agree to this access of my medical records and specimen for diagnostic and research purpose.

Disclaimer : For any test/service related complain/query please contact MoLQ Laboratory for resolution. In case of any dispute the jurisdiction will be Head Office, Dehradun, Uttarakhand. The financial liability or compensation of any sort is not more than MRP of the Test requested.

रोगी सहमत है : मैं मोल्क्यु प्रयोगशाला को अधिकृत करता हूँ कि मेरी पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी अपनी किसी भी शाखा के साथ साझा कर सकती है। मेरी बीमारी की हालत या सूचना का खुलासा अगर परीक्षण के संचालन के लिए आवश्यक है, तो मैं इसकी अनुमति देता हूँ यद्यपि यह जानकारी उस सीमा तक साझा की जाए जो कि कानूनी सीमा के अंतर्गत हो। मेरी इस प्रकार की जानकारी को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ना कराई जाए। इसके पश्चात मैं प्रयोगशाला को देबारा अधिकृत करता हूँ कि जो नमूना जाँच के लिए उपलब्ध करवाया था, उसमें से बचे हुए नमूने को प्रयोगशाला कभी भी और किसी भी समय किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए उपयोग में ला सकती है। शेष नमूने को पूर्ण रूप से अंकित किया जाए और गुप्त रूप से रखा जाए, जब इसको नष्ट किया जाए तो पूर्ण रूप से नियम और विनियमता का उपयोग किया जाए। किसी भी प्रकार के मोल्क्यु प्रयोगशाला के प्रकाशन में रोगी की निजी जानकारियों को पूर्ण रूप में गुप्त रखा जाएगा। मैं सहमत हूँ कि मेरी मेडिकल रिकॉर्ड और मेरे बचे हुए नमूने को नैदानिक प्रयोग और किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

अस्वीकृति : किसी भी जाँच सम्बन्ध शिकायत या जानकारी हेतु आप मोल्क्यु प्रयोगशाला को सम्पर्क कर सकते है, किसी भी प्रकार की कानूनी झगड़े हेतु हमारा मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड है, किसी भी जाँच का मूल्य उसकें दिए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं होगा।

Patient/Client /Doctor's Signature
Date : _____

General Hospital , Gurgaon

(Department of Radiology -THSTI)

Report of Ultrasonography

AA/GGN/07/0034

Patients Name Noorjha Age & Sex 26y/f Date 05-01-18
Husband's/ Father's Name Eshad Referring Doctor Name Dr Kusum
Residential Address Aharpur
Outdoor /Indoor No. 1886/S13054/EO 3655 Ultrasound No. 9874
Identification Card Aadhar card
Number of Children One M F

ULTRASOUND REPORT----11-14 WKS(EM SCAN)

Number of foetus : Single

FHR : 167/bpm

Placenta Posterior

Foetal Parameters (in mm)

CRL	NT	NB	IT
<u>62.7</u> mm	<u>1.2</u> mm	<u>1.9</u> mm	<u>1.8</u> mm
<u>12</u> Weeks <u>5</u> Days			

Liquor : Normal

Gestational Age : 12 WEEKS 5 DAYS

EDD 15-07-18

Any Congenital Anomaly : —

No obvious GCMF seen ,all Congenital abnormalities can not be detected in USG due to varoious reasons.

DECLARATION OF PREGNANT WOMAN

1. Mrs. Noorjha (Name of the Pregnant woman) declare that by undergoing Ultrasonography / Image scanning etc .I do not want to know the sex of my foetus .

Signature /Thumb impression of pregnant woman
Noorjha

DECLARATION OF DOCTOR / PERSON CONDUCTING ULTRASONOGRAPHY / IMAGE SCANING

I, Dr VARUN SHARMA... (Name of the person conducting ultrasonography /image scanning) declare that while conducting ultrasonography / image scanning on Mrs Noorjha (Name of the pregnant woman) I have neither detected nor disclosed the sex of her foetus to anybody in any manner .

Date: 05-01-18

Var
Dr VARUN SHARMA

Consultant Radiologist